

May 21, 2021

Asst. Vice President, Listing Deptt.
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re : Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
Sub : Submission of newspaper advertisement

Dear Sirs,

In furtherance to our letter dated May 20, 2021, please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement published regarding notice to relevant shareholders to claim unpaid/ unclaimed dividend of FY 2013-14 (Final) & FY 2014-15 (Interim) failing which the shares will be transferred to Investor Education and Protection Fund Authority.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Ltd.



(Dhiraj Kapoor)
General Manager - Secretarial

Encl.: as above

dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more and which are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), a Fund constituted by the Government of India under Section 125 of the Companies Act, 2013.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account under the said Rules at their latest available address. The Company has also uploaded full details of such shareholder and shares due for transfer to IEPF Suspense Account on its website: www.indoco.com under the heading "Investors – Unpaid dividend- IEPF Suspense Account- Shares". The shareholders may further note that the details upload by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account pursuant to the said Rules.

Please note that in order to comply with the aforesaid Rules for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account, the Company would issue duplicate share Certificate(s) in lieu of the original share Certificate(s) held by the shareholder physically. For shares held in Demat mode, the Company will follow the process as laid down under the said Rules. Upon such issue of duplicate share certificates, the original share certificates which stands registered in their names will stand automatically cancelled and will have no effect thereafter.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 30, 2021 the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the said Rules, transfer the shares to the IEPF Suspense Account by the due date as per procedure stipulated in the said Rules without any further notice.

Shareholders are requested to claim their unclaimed dividend at the earliest by submitting the written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque to Link Intime India Pvt. Ltd, Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) or at the registered office of the Company.


In case the shareholders have any query on the subject matter, they may contact Link Intime India Pvt. Ltd (RTA) C-101,247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400 083 or the Company Secretary at the Registered office of the Company or by email: compliance.officer@indoco.com, Telephone No: 022-68321400.

By order of the Board
For Indoco Remedies Ltd.
S/d
Jayshankar Menon
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : May 20, 2021

www.eprocure.gov.in

Last date for Submission of Tenders is 10th June, 2021 upto 12:30 pm
PLACE : MUMBAI Asst. General Manager-
DATE : 20/05/2021 BSD (Insurance)



(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001.
Corporate Identification Number U40109PB2010SGC033813
Website: www.pspcl.in, Contact No. 96461-18774

TENDER ENQUIRY NO.: MQP-178/2021-22/PR Dated: 20.05.2021

CE/Metering, PSPCL C-3, Shakti Vihar, PSPCL Patiala invited E-tender For procurement of cubicle (Metal Box) for housing 10,000 nos, LT AC three phase four wire, CT operated static energy meter and for housing 3 no. epoxy resin cast ring type CTs.

For detailed NIT and tender specification, please refer to <https://eproc.punjab.gov.in> from 22.05.2021 (11:00 AM onwards).

Note: Corrigendum and addendum, if any will be published online at <https://eproc.punjab.gov.in>

C 197/21 76155/12/264/2021/4720

tdps creates value

TD P
(CIN -)
REGIS
27, 28
Taluk

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31ST 2021

Particulars	
Total Income from Operations (net)	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items #)	
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items #)	
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items #)	
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	
Equity Share Capital	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) -	
a) Basic	
b) Diluted	
Notes:	
1. Standalone details	
Net Sales / Income from Operations	
Profit Before Tax	
Profit After Tax	
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	
2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for quarter and year ended March 31st 2021 (in accordance with the Companies (Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results for quarter and year ended March 31st 2021 are available on the company's website www.nseindia.com & on the company's website www.tdps.co.in .	
3. The results have been prepared in accordance with the IND AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Regulations, 2015 and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 19th May 2021.	
4. # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with the Companies Act, 2013.	
5. Attention is drawn to Note No.7 of the notes to financial results for the quarter and year ended March 31st 2021.	
Place : Frankfurt Date : 19th May 2021	

Hero MotoCorp Limited
Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220
Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com
Website: www.heromotocorp.com

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)

SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO IEPF (INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND)

This notice is published pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 (the 'Rules'), as amended from time to time.

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has remained unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

According to the various requirements set out in the Rules, the Company has sent notices by way of e-mail dated May 20, 2021 to the concerned shareholders having registered their email addresses with the Company and whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the said Rules for taking appropriate action(s). The Company will also dispatch the notices to the registered address of such shareholders, once the situation created by the countrywide outbreak of the pandemic COVID-19, gets normalized.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to Demat account of IEPF on its website at <https://www.heromotocorp.com/en-in/investors/unclaimed-dividends.html> to verify the details of unclaimed dividends and shares liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority. Any concerned shareholder, whose email address is not registered or who has not received such an email may approach the Registrar.

In view of the above, all such shareholders are requested to make an application to the Company/ Registrar by 18.08.2021 for claiming the unpaid dividend of FY 2013-14 (Final) & FY 2014-15 (Interim) so that their shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if no claim/application is received by the Company or the Registrar by the aforesaid date, the Company will be compelled to transfer the underlying shares to the IEPF, without any further notice.

Shareholders may note that both the unpaid/unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF Bank/ Demat Account including all benefits accruing on such shares, if any, may be claimed by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as sufficient information and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the Demat Account IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agent at M/s. KFin Technologies Private Limited, Ms. Shaik Salma Begum, Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana, India. Toll Free no.: 1800-309-4001. Email: einward.ris@kfinetech.com, Website: www.kfinetech.com.

Lastly, Members are advised to register their email id and ECS mandate with the RTA/ DP and also to consider converting their physical holding to dematerialized form to eliminate risks associated with physical shares and for ease of holding. Members can write to the Company's Registrar in this regard.

For and on behalf of
Hero MotoCorp Limited
Sd/-

Place : New Delhi
Date : May 20, 2021
Neerja Sharma
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Law provides voting rights to all shareholders proportionate to their holding in the Company. Hero encourages shareholders to exercise their voting rights and actively participate in decision making process

Table with 2 columns: Sl. No. and Details. Contains information about various government projects and tenders, including dates and descriptions.

Table with multiple columns: Details of projects, dates, and contact information. Includes specific project names like 'श्रीमती दीक्षा कुमारी' and dates like '25.03.2021'.

HERO logo and Hero MotoCorp Limited contact information including address, CIN, and phone number.

हिरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 4 फ्लैट प्लाजा, प्लॉट नं. 2, नैसन मंडेला रोड, बसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली-110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220
फैक्स: 011-46044399 | ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com

इण्डियन ओवरसीज बैंक

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (प्रतिभूति वि
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्राक्छानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुन
एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक को बंधक/प्रभारित अधोलिखित
"जो है उसी है" और "जैसी भी हैं" आधार पर बिक्री की जायेगी:

Table with 4 columns: क्र. सं., कर्जदारों के नाम, इंडियन ओवरसीज बैंक को देय राशि, अचल संपत्ति का विवरण. Contains details of loans and assets for sale.

2

उभ के वृत्त सं ह

2